



National Forensic Sciences University

Knowledge | Wisdom | Fulfilment

An Institution of National Importance
(Ministry of Home Affairs, Government of India)

३ वार्षिक लेखा

3rd Annual Account 2022-2023

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय

(राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

National Forensic Sciences University

३वां वार्षिक लेखा
**3rd Annual Account
2022-2023**

INDEX

Sr. No.	Particulars	Page No.
1	महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	1 - 5
2	Report of the Comptroller and Auditor General	6 -10
3	Balance Sheet as on 31st March, 2022	11
4	Income and Expenditure Statement	12
5	Schedule Forming Part of Balance Sheet at 31st March, 2023	13 - 30
6	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	31 - 40
7	Significant Accounting Policies	41 - 50
8	Receipts & Payments Account	51 - 52

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर की संलग्न बैलेंस शीट को कानून की धारा 19(2) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते / प्राप्तियां और भुगतान खाते का लेखापरीक्षा किया है। महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 की धारा 36(2) के साथ पढ़ा जाये। इन वित्तीय विवरणों में एनएफएसयू के आठ (08) परिसरों के खाते शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण एनएफएसयू के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जवाबदेही इस लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है।

2. इस अलग से प्रस्तुत ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप मात्र वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन मानकों और खुलासों (disclosure) के मानदंडों को ध्यान में रखते हुये लेखांकन करने के तौर तरीकों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियम और विनियमों (संपत्ति और नियमितता) और कौशल्य-सह-प्रदर्शन से जुड़े पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हमें इस बारे में उचित आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्यावाचन से रहित हैं ताकि इसके आधार पर लेखापरीक्षा की योजना बनाई और निष्पादित की जा सके। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियां और खुलासों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों को, जांच के आधार पर शामिल करना है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखापरीक्षा हमारे निष्कर्ष के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

प्रथम. हमने सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक थे;
द्वितीय. इस रिपोर्ट से सम्बंधित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता तथा रसीद और भुगतान खाता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
तृतीय. जहां तक ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, हमारी राय में एनएफएसयू अधिनियम की धारा 36(1) के अनुसार आवश्यक खातों से सम्बद्ध पुस्तकें और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा बनाए रखा गया है।

चतुर्थ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

क.1 निर्धारित/ अनुदान निधि ₹ 98.35 करोड़

(संदर्भ संख्या: OBS-1014351)

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित खातों के समान प्रारूप के अनुसार अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि या इकाई द्वारा विशिष्ट या निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशि और शेष को उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए खर्च / उपयोग किया जाना है , जिसके लिए व्यय करने का उनका निश्चय है तथा शीर्ष अनुसूची 3 (उद्दिष्ट / अनुदान निधि) के मुताबिक उनका खुलासा किया जाना आवश्यक है। ऐसी धनराशि सरकार, सरकारी एजेंसियों, संस्थानों और अन्य एजेंसियों आदि से नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त की जा सकती है तथा इनका उपयोग इकाई द्वारा कुछ निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुपालना के अधीन हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए एनएफएसयू, गांधीनगर के वार्षिक खातों की जांच से पता चला कि विश्वविद्यालय को अपने आधुनिकीकरण के लिए सीएनए अनुदान (अनुदान निधि) के रूप में कुल ₹187.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था। इस अनुदान राशि में से विश्वविद्यालय ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में ₹125 करोड़ के अनुदान का खर्च दिखाया है। यद्यपि इसके तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की अनुसूची 1 (पूंजी/कॉर्पस फंड) से पता चलता है कि पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली अनुदान निधि की राशि केवल ₹ 88.56 करोड़ थी। तदनुसार ₹ 36.44 करोड़ के अव्ययित अनुदान को अनुदान निधि के अंतर्गत शेष के रूप में दिखाया जाना आवश्यक था। यद्यपि इसे पूंजीगत कार्य के प्रावधान के रूप में वर्तमान देनदारियों और प्रावधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अनुदान निधि (अनुसूची 3) को ₹36.44 करोड़ से कम बताया गया और वर्तमान देनदारियों और प्रावधान (अनुसूची 7) को अधिक बताया गया।

**क.2 वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹ 319.35 करोड़
(संदर्भ संख्या: OBS-1019407)**

विश्वविद्यालय में चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में खातों पर दर्ज टिप्पणियों से पता चलता है कि प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान देनदारियां और प्रावधान - वर्तमान देनदारियां-अन्य देनदारियां-चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां" शीर्षक के अंतर्गत जमा किया जाता है।

जब भी ऐसी परियोजनाओं के लिए व्यय किया जाता है अथवा अग्रिम भुगतान किया जाता है तो संबंधित परियोजना खाते के लिए आवंटित उपरि (ओवरहेड) शुल्क से विकलन (डेबिट) किया जाता है और देयता खाते से समान राशि को विकलित कर लिया जाता है।

जांच से पता चला कि विश्वविद्यालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए चल रही परियोजना की प्राप्तियों और व्यय को पृथक परियोजना खाते के तहत बुक करने की जगह अपने स्वयं के आय और व्यय खाते के अंतर्गत दर्ज किया। विश्वविद्यालय ने प्रवर्तन निदेशालय परियोजना से ₹16.24 लाख आय के रूप में और ईडी-एलएबी के पारिश्रमिक के लिए ₹33.15 लाख का व्यय दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप अधिशेष को ₹16.91 लाख कम और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को अधिक बताया गया।

ख.आय और व्यय

बिक्री और सेवाओं से आय (अनुसूची-12): ₹20.05 करोड़

(संदर्भ संख्या: OBS-1016953)

वित्तीय विवरण के संकलन के लिए नोट्स और निर्देशों के अनुसार गैर-लाभकारी संगठनों और अन्य समरूप संस्थानों के लिए यदि इकाई, सेमिनार/कार्यशाला जैसी प्रमुख गतिविधियां आयोजित करता है और/या परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करता है तो ऐसी आय अनुसूची 12 का हिस्सा होनी चाहिए (बिक्री एवं सेवाओं से आय)। आगे बताया गया है कि सेमिनार/कार्यशाला, परामर्श आदि पर किया गया व्यय अनुसूची 21 में "अन्य प्रशासनिक व्यय" के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

जांच से पता चला कि कंसल्टेंसी शुल्क आवक लेजर के अनुसार वर्ष के दौरान परामर्श दात्री सेवाओं से आय की सकल प्राप्ति ₹13.38 करोड़ थी। हालांकि विश्वविद्यालय ने वृत्तिक (पेशेवर)/परामर्श /सेवा-आय के रूप में ₹3.61 करोड़ की शुद्ध प्राप्तियाँ दर्ज की। परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की आय ₹9.77 करोड़ कम बताई गई और उसके अनुसार व्यय भी कम बताया गया।

- ग. प्राप्ति एवं भुगतान खाता - शून्य
- घ. लेखांकन नीति - शून्य
- च. सामान्य - शून्य

च. सहायता अनुदान

वार्षिक खातों के अनुसार पिछले वर्ष का अव्ययित सहायता अनुदान शून्य था। 2022-23 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान ₹70.00 करोड़ था। वर्ष के दौरान उपयोग की गई सहायता अनुदान राशि ₹70.00 करोड़ थी। वर्ष के दौरान अप्रयुक्त सहायता अनुदान शून्य था।

छ. लेखापरीक्षा का शुद्ध प्रभाव

लेखापरीक्षा का शुद्ध प्रभाव यह है कि देनदारियां ₹0.17 करोड़ से ज्यादा बताई गई हैं और वर्ष के दौरान अधिशेष ₹0.17 करोड़ से कम बताया गया है।

पंचम. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र (बैलेंस शीट), आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते, सभी खाता की पुस्तकों के अनुसार हैं।

षष्ठम. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उन्होंने कहा कि वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और अनुबंध-1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन होते हैं। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

- क. जहां तक यह 31 मार्च 2023 तक नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू), गांधीनगर के मामलों की तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से सम्बंधित है; तथा
- ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष, आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के C&AG के लिए तथा उनकी ओर से

ह०XXX

महा निदेशक लेखापरीक्षा (सी)

स्थान: अहमदाबाद

दिनांक: 31/01/2024

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: एनएफएसयू गांधीनगर में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। विश्वविद्यालय के पास अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली भी नहीं है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: प्रत्येक प्राधिकरण को अलग-अलग शक्तियाँ सौंपी गई हैं।
3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: एनएफएसयू गांधीनगर द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया/पूरा किया गया है।
4. इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: एनएफएसयू द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया/पूरा नहीं किया गया है।
5. वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमितता: विश्वविद्यालय वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है।

ह० XXX

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सीए (ई)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Forensic Science University (NFSU), Gandhinagar for the year ended 31 March 2023

We have audited the attached Balance Sheet of National Forensic Sciences University (NFSU), Gandhinagar as at 31 March 2023 and the Income & Expenditure Account/ Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 36(2) of the National Forensic Sciences University Act, 2020. These financial statements include the accounts of eight (08) campuses of NFSU. These financial statements are the responsibility of NFSU's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Draft Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only, with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Forensic Sciences University, Gandhinagar as required under Section 36(1) of the NFSU Act in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. Balance Sheet

A.1. Earmarked/Endowment Fund ₹ 98.35 crore

(Reference Number: OBS-1014351)

As per the Uniform Format of Accounts prescribed for Central Autonomous Bodies, amounts received as grants or assistance or retained by the entity to be utilized for specific or Earmarked purposes and remaining to be expended/ utilized for the specific purpose for which these are intended, are required to be disclosed under the head Schedule 3 (Earmarked/ Endowment Funds). Such funds may be received in cash or kind from Government, Government Agencies, Institutions and other agencies etc. and are subject to compliance by the entity, of certain stipulated terms and conditions.

Scrutiny of Annual Account of NFSU, Gandhinagar for the year 2022-23 revealed that the University had received total grant of ₹187.50 crore as CNA Grant (Endowment Fund) for its modernization. Out of this grant amount, the University has shown utilization of grant of ₹125 crore towards its objective. However, Schedule 1 (Capital/ Corpus Fund) of its Balance Sheet discloses that the amount of Endowment Fund utilized for capital expenditure was only ₹ 88.56 crore. Accordingly, the unspent Grant of ₹ 36.44 crore was required to be shown as balance under Endowment Fund. However, it was incorrectly accounted under Schedule 7 of *Current Liabilities & Provision as Provision for Capital Work*. This resulted in understatement of Endowment fund (Schedule 3) by ₹36.44 crore and corresponding overstatement of Current Liabilities & Provision (Schedule 7).

A.2. Current Liabilities & Provision (Schedule-7): ₹319.35 crore

(Reference Number: OBS-1019407)

Notes on Accounts in respect of ongoing Sponsored Projects of the University discloses that the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions -Current Liabilities -Other Liabilities -Receipts against ongoing sponsored projects".

As and when expenditure is incurred/ advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited by the identical amount.

Scrutiny revealed that University booked receipts and expenditure of ongoing Project for Enforcement Directorate (ED) under its own Income & Expenditure account, instead of booking it under separate Project Account. University had booked ₹16.24 lakh as income from ED Project and expenditure of ₹33.15 lakh made towards remuneration to ED-LAB. This resulted in understatement of Surplus by differential amount of ₹16.91 lakh and corresponding overstatement of Current Liabilities & Provisions.

B. Income and Expenditure

Income from Sales & Services (Schedule -12): ₹20.05 crore.

(Reference Number: OBS-1016953)

As per Notes and Instructions for compilation of Financial Statement of Non Profit Organisations and other similar institutions, in case the major activities of the Entity are to organize seminar/ workshop and/or provide consultancy services, such income should form part of the Schedule 12 (Income from Sales & Services). It is further stated that the expenditure incurred on seminar/ workshop, consultancy etc. should be shown as 'other administrative expenses' in the schedule 21.

Scrutiny revealed that the gross receipt towards consultancy services income for the year was ₹13.38 crore as per its Consultancy Fees Income ledger. However, University booked only net receipts of ₹3.61 crore as Professional/Consultancy services income. This resulted in understatement of University's income by ₹9.77 crore and corresponding understatement of its Expenditure.

C- Receipt & Payment Account- Nil

D- Accounting Policy- Nil

E- General- Nil

F. Grant in Aid

As per annual accounts the unspent grants-in-aid of previous year was nil. The grants-in-aid received during 2022-23 was ₹70.00 crore. The grants-in-aid utilized for the year was of ₹70.00 crore. The unutilized grants-in-aid for the year was nil.

G. Net Effect of Audit

The net effect of audit is that the Liabilities are overstated by ₹ 0.17 crore and the Surplus during the year is understated by ₹ 0.17 crore.

- v. Subject to our observations in preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, they said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report gives a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Forensic Science University (NFSU), Gandhinagar as at 31 March 2023; and
 - b. In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Director General of Audit (C)

Place: Ahmedabad

Date: 31.01.2024

Annexure-I to Audit Report

- 1. Adequacy of Internal Audit System:** There is no internal audit wing at NFSU, Gandhinagar. The University also doesn't have its own Internal Audit manual.
- 2. Adequacy of Internal Control System:** The power has been delegated to each authority separately.
- 3. System of Physical verification of fixed assets:** Physical verification of fixed assets has been carried out/completed by the NFSU, Gandhinagar.
- 4. System of Physical verification of inventory:** Physical verification of inventory has not been carried out/completed in Financial Year 2022-23 by the NFSU.
- 5. Regularity in payment of statutory dues:** The University is regular in depositing the statutory dues.



Sr. Audit Officer/CA (E)

**NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
DRAFT BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023**

(Amount - Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	2,35,46,68,703	99,17,21,942
Reserve and Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Fund	3	98,35,12,882	32,38,94,534
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	3,19,35,55,842	2,87,16,81,435
Total		6,53,17,37,427	4,18,72,97,911
ASSETS			
Fixed Assets	8	2,91,77,58,942	1,96,15,15,460
Investments - From Earmarked/Endowment Funds	9	3,44,06,512	2,59,70,186
Investments - Others	10	-	-
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	3,57,95,71,973	2,19,98,12,266
Miscellaneous Expenditures (to the extent not written off or adjusted)			
Total		6,53,17,37,427	4,18,72,97,911
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

For National Forensic Sciences University


Executive Registrar


Finance Officer

Place: Gandhinagar
Date: 27/09/2023



Shwankar

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/के. ले. प. (व्यय)
Sr. Audit Officer/CA(E)
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), गुजरात
Office of the Director General of Audit (Central), Gujarat
लेखापरीक्षा भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009
Audit Bhavan, Navrangpura, Ahmedabad-380 009

NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
DRAFT INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

PARTICULARS	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Income from Sales/Services	12	20,05,88,997	19,82,97,830
Grants/Subsidies	13	60,00,00,000	5,58,16,508
Fees/Subscription	14	57,56,29,232	21,57,54,776
Income from Investment	15	-	-
(Income in Invest. from Earmarked/Endow. Funds transferred to Funds)			
Income from Royalty, Publication, etc.	16	-	-
Interest Earned	17	8,14,50,479	10,10,39,568
Other Income	18	2,60,77,728	54,64,423
Increase/(Decrease) in stock of finished goods and work-in-progress	19	-	-
Total (A)		1,48,37,46,435	57,63,73,105
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	50,34,54,822	24,87,33,495
Other Administrative Expenses etc.	21	52,11,12,507	25,50,63,745
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation (Refer Note to Accounts)	8	22,92,91,481	-
Total (B)		1,25,38,58,810	50,37,97,240
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		22,98,87,625	7,25,75,865
Less : Transfer to/from Research & Development fund		10,00,00,000	7,00,00,000
Balance being Surplus/(Deficit) transferred to Corpus / capital Fund		12,98,87,625	25,75,865
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		


For National Forensic Sciences University


Executive Registrar


Finance Officer

Place: Gandhinagar

Date: 27/09/2023


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/के. ले. प. (व्यय)
Sr. Audit Officer/CA(E)
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), गुजरात
Office of the Director General of Audit (Central), Gujarat
लेखापरीक्षा भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009
Audit Bhavan, Navrangpura, Ahmedabad-380 009



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
 SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 3 - Earmarked/Endowment Funds	Fund-wise Breaks up							R & D Grant
	LNIN NICTS HOOTEL	DGP Police Training	Gold Medal Fund - Tripora	Gratuity Fund	CHA Grant (*)	Grant for Award		
	1	2	3	4	5	6	7	
a) Opening balance of the Funds	4,57,60,398	16,11,000	-	-	-	81,40,000	-	19,72,535
b) Addition to the Funds :								
i. Donation/grants	-	-	5,00,000	3,21,79,912	1,87,50,00,000	-	-	-
ii. Income from Investment made on account of fund	-	56,805	-	25,37,821	15,36,693	1,44,900	-	89,039
iii. Other additions	-	-	-	56,805	-	-	-	-
iv. Transfer from Internal Income	-	-	-	3,46,67,233	-	1,87,66,19,693	-	-
Total (a+b)	4,57,60,398	16,79,805	5,00,000	3,46,67,233	1,87,66,19,693	1,44,900	-	89,039
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds								
i. Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixed Assets	-	-	-	-	3,25,00,00,000	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	3,25,00,00,000	-	-	-
ii. Revenue Expenditure	18,00,000	-	-	-	-	-	-	-
Salaries, Wages and allowance etc.	-	-	-	-	-	-	-	-
Rent	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Administrative expenses	-	-	-	2,61,221	-	-	-	-
Total	18,00,000	-	-	2,61,221	-	-	-	-
Total (c)	18,00,000	-	-	2,61,221	-	-	-	-
Net balance as at the year end (a + b - c)	4,39,60,398	16,79,805	5,00,000	3,44,06,012	1,25,00,00,000	62,66,39,693	42,84,900	20,41,574

Schedule 3 - Earmarked/Endowment Funds

Schedule 3 - Earmarked/Endowment Funds	Fund-wise Breaks up							AS AT 31/03/2022
	MHA, Hecharchan Grant	R & D Reserve Fund	RPSA Grant (**)	UNIN NICTS Chair Fund	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022		
	8	9	10	11	TOTAL (1 TO 11)	TOTAL (1 TO 11)		
a) Opening balance of the Funds	1,51,76,790	17,00,00,000	8,52,21,851	-	3,90,20,30,371	26,58,43,853	7,16,33,000	
b) Addition to the Funds :								
i. Donation/grants	-	-	-55,99,541	-	2,83,812	68,01,260	-	
ii. Income from Investment made on account of fund	-	-	-41,64,446	-	-7,54,57,564	7,84,34,260	-	
iii. Other additions	-	-	-7,54,57,564	-45,22,551	10,00,00,000	-	-	
iv. Transfer from Internal Income	-	10,00,00,000	-	-	1,52,68,16,619	-	-	
Total (a+b)	1,51,76,790	27,00,00,000	300	300	2,29,07,931	32,42,67,319	-	
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds								
i. Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	
Fixed Assets	-	-	-	-	3,25,00,00,000	-	-	
Others	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	-	-	-	3,25,00,00,000	-	-	
ii. Revenue Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	
Salaries, Wages and allowance etc.	-	-	-	-	-	-	-	
Rent	-	-	-	-	18,00,000	-	3,72,681	
Other Administrative expenses	1,51,76,790	-	300	-	1,54,18,771	-	-	
Total	1,51,76,790	-	300	300	1,72,38,271	-	3,72,681	
Total (c)	1,51,76,790	-	300	300	1,72,38,271	-	3,72,681	
Net balance as at the year end (a + b - c)	2,89,90,608	27,00,00,000	300	-	96,35,17,882	32,38,94,534	-	

(*) Refer Note - 19 of Schedule 25 - Contingent Liabilities and notes to accounts
 (***) Refer Note - 15 of Schedule 25 - Contingent Liabilities and notes to accounts



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 4 - Secured Loans and Borrowings :	AS AT 31/03/2023		AS AT 31/03/2022	
1. Central Government		-		-
2. State Government		-		-
3. Financial Institutions				
a) Term Loans	-		-	
b) Interest accrued and due	-	-	-	-
4. Banks				
a) Term Loans	-		-	
Interest accrued and due	-		-	
b) Other Loans	-		-	
Interest accrued and due	-	-	-	-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (specify)		-		-
Total		-		-
Note : Amounts due within one year		-		-



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 7 - Current Liabilities and Provisions	AS AT 31/03/2023		AS AT 31/03/2022	
A. Current Liabilities				
1. Acceptances		-		-
2. Sundry Creditors				
a) For Goods	13,37,162		2,22,35,829	
b) Others	14,37,423	27,74,586	2,01,488	2,24,37,317
3. Advances Received		8,17,39,245		13,89,038
4. Interest accrued but not due on :				
a) Secured Loans/borrowings	-		-	
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-	-	-
5. Statutory Liabilities :				
a) Overdue	2,88,021		-	
b) Others	2,95,81,799	2,98,69,820	6,39,41,618	6,39,41,618
6. Other current liabilities				
a) Salary Payable		10		-
b) Advances from staff		538		-
c) Deposits from students		1,95,56,119		2,12,42,437
d) Deposits - Others (incl. EMD, S.D.)		1,75,69,795		1,46,19,158
f) Retention money		94,39,807		1,16,49,807
g) Receipts against sponsored projects		5,93,52,975		5,58,53,645
h) Receipts against sponsored fellowship		5,93,878		5,31,760
i) Interest earned on Unutilised Grants		4,27,492		-
j) Inter Campus - Fund A/c		-		-
k) Inter Campus - Current A/c (*)		2,77,546		-
l) Unrecongised Funds/Receipts (**)		5,07,528		98,550
m) Stale Cheque A/c		6,778		-
n) Advance fee receipts from students		47,752		2,36,595
o) Other liabilities		40,000		-
p) Expenses Payable		-		-
7. GOVERNMENT GRANT				
a) Grants		2,47,26,70,568		2,47,26,70,569
Total (A)		2,69,48,74,436		2,66,46,70,493
B. Provisions				
1. For Taxation		-		-
2. Gratuity		-		-
3. Superannuation/Pension		-		-
4. Accumulated Leave Encashment		5,62,73,199		-
5. Expenses		7,79,53,172		70,10,942
6. Capital Work		36,44,55,035		20,00,00,000
Total (B)		49,86,81,406		20,70,10,942
Total (A + B)		3,19,35,55,842		2,87,16,81,435

(*) Refer Note - 17 of Schedule 25 - Contingent Liabilities and notes to accounts

(**) Refer Note - 14 of Schedule 25 - Contingent Liabilities and notes to accounts



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 5 - Unsecured Loans and Borrowings :	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
1. Central Government	-	-
2. State Government	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
7. Others (specify)	-	-
Total	-	-
Note : Amounts due within one year	-	-

(Amount - Rs.)

Schedule 6 - Deferred Credit Liabilities :	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
Total	-	-
Note : Amounts due within one year	-	-



NATODANK FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Description	Gross Block			Depreciation			Net Block		
	Op. Balance	Addition during the year	Deduction during the year	Cl. Balance	Op. Balance	On addition during the year	On deletion/adjustment	As at the Current year end	As at the previous year end
A. Fixed Assets									
1. Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Site Development	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Buildings	95,15,90,286	3,59,20,480	-	98,86,10,766	-	9,72,44,005	-	89,13,66,761	95,26,90,186
a) On Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) On Leasehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plant, Machinery & Equipments	4,86,654	60,45,062	-	65,31,556	-	1,95,058	-	63,36,498	4,86,494
4. Vehicles	77,78,379	64,25,602	-	1,42,04,731	-	14,67,879	-	1,27,36,852	77,78,129
5. Furniture, Fixtures	3,15,02,269	14,17,05,365	-	17,42,07,634	-	92,95,864	-	16,49,11,781	3,25,02,269
6. Office Equipment	12,15,49,814	2,30,24,336	-	14,45,74,350	-	2,39,36,537	-	12,06,37,813	12,15,49,814
7. Computer/Peripherals	48,45,017	12,36,92,357	-	12,77,37,574	-	1,75,20,388	-	11,02,17,186	40,45,017
8. Electric Installation	46,87,984	97,50,611	-	1,39,38,595	-	11,15,311	-	1,28,23,284	46,87,984
9. Library Books	80,70,836	2,63,08,517	-	3,43,79,353	-	35,68,535	-	3,08,10,818	80,70,836
10. Tubewells & W. Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Road & Bridge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Other Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Equipments - Others	3,45,48,864	91,07,688	-	4,36,56,552	-	52,94,396	-	3,83,62,156	3,45,48,864
b) Audit Visual Equipments	3,09,76,316	21,01,607	-	3,30,77,923	-	1,94,935	-	3,28,82,988	3,09,76,316
c) Lab Equipments	25,39,33,366	51,42,57,545	-	76,81,90,911	-	6,63,45,106	-	70,18,41,804	25,39,33,366
d) Small Value Assets	3,400	4,956	-	8,356	-	8,356	-	-	3,400
12. Intangible Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) E Journals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Computer Softwares	39,73,142	80,70,509	-	1,20,43,651	-	31,00,123	-	89,43,528	39,73,142
Total of current year (A)	1,45,52,45,918	90,59,16,034	-	2,36,11,61,952	-	22,92,95,481	-	2,13,18,70,469	1,45,52,45,918
Previous year	1,34,79,16,910	61,95,98,550	-	1,96,15,15,460	-	-	-	1,96,15,15,460	1,34,79,16,910
B. Capital work-in-progress (B)	50,62,69,542	27,96,18,931	-	78,58,88,473	-	-	-	78,58,88,473	50,62,69,542
Total = (A) + (B)	1,96,15,15,460	1,18,55,94,985	-	3,14,70,50,425	-	22,92,95,481	-	2,91,77,54,942	1,96,15,15,460

note no 8.1

All Campus of the University are operated on the Land & Building provided by the respective State Government to the University at free of cost/lease., except the transits campus at Goa where long term lease for 60 years is operated on rented premises. The yearly rent is Rs. 55,70,220/- with 5% increase every year. The value of these free of cost/ lease land and building is not shown.



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 9 - Investment from Earmarked/Endowment Funds	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specify)	-	-
- NFSU EMPLOYEES's Gratuity Fund with LIC	3,44,06,512	2,59,70,186
- Fixed Deposits		
Total	3,44,06,512	2,59,70,186

Schedule 10- Investments - Others	AS AT 31/03/2023	AS AT 31/03/2022
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specify)	-	-
Total	-	-



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances etc.	AS AT 31/03/2023		AS AT 31/03/2022	
A. Current Assets :				
1. Inventories :				
a) Stores and Spares	-		-	
b) Stationery	-		-	
c) Stock-in-trade				
Finished goods	-		-	
Work-in-progress	-		-	
Raw Materials	-		-	
2. Sundry Debtors				
a) Debt outstanding for a period exceeding six months	-		-	
b) Others	11,18,60,417	11,18,60,417	9,14,72,945	9,14,72,945
3. Cash balance in hand (including cheques/drafts and imprest) (note no 11.1)				
		80,958		3,90,000
4. Bank balances (NOTE NO 11.2)				
a) With Scheduled Banks :				
On Current Accounts (NOTE NO 11.02)	85,59,50,377		40,44,66,615	
On Deposit Accounts (includes margin money (NOTE NO 11.3))	2,18,95,94,083		1,34,71,25,520	
On Savings Accounts (NOTE NO 11.4)	15,84,89,676	3,20,40,84,186	11,55,43,583	1,86,71,35,738
b) With non-scheduled Banks :				
On Current Accounts	-		-	
On Deposit Accounts	-		-	
On Savings Accounts	-		-	
5. Post office Savings Accounts				
Total (A)		3,31,59,75,510		1,95,89,98,682
B. Loans, Advances and Other Assets				
1. Loans				
a) Loan / Advances to Staff*	27,77,714		19,73,822	
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-		-	
c) Other (specify)	-	27,77,714	-	19,73,822
2. Advance and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received				
a) On Capital Account	16,27,02,014		18,22,39,558	
b) Prepayments	2,35,249		42,369	
c) Others - Deposits	-	16,29,37,263	-	18,22,81,927
3. Income Accrued				
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	-		-	
b) On Investments - Others	-		-	
c) On Loans and Advances	-		-	
d) Others - Bank Interest Accrued but not due (includes income due unrealised-Rs.)	-		3,05,13,641	3,05,13,641
4. Claims Receivable				
		88,500		
5. Others				
a) Deposits	1,23,47,732		46,96,413	
b) Pre paid Expenses	6,65,74,781		-	
c) TDS Receivable	1,80,22,787		2,13,47,780	
d) Debit balances in Sponsored Projects	8,47,686	9,77,92,986	-	2,60,44,193
Total (B)		26,35,96,463		24,08,13,583
Total (A + B)		3,57,95,71,973		2,19,98,12,266

*Advance to staff is shown as loan/advance to staff



NOTE NO 11.1 CASH AND BANK BALANCE		AS ON 31/03/2023	
CASH AND BANK BALANCE		AMOUNT	
CASH ON HAND			
GANDHINAGAR CAMPUS		56,907	
BHOPAL CAMPUS		21,269	
MANIPUR		2,765	
PUNE		17	
TOTAL		80,958	
BANK BALANCES (note no 11.2)			
NAME OF THE BANK		AMOUNT	
PNB JALSEVA BHAVAN GANDHINAGAR A/C NO 443		4,84,73,324	
PNB JALSEVA BHAVAN GANDHINAGAR A/C NO 776		-47,48,235	
PNB JALSEVA BHAVAN GANDHINAGAR A/C NO 45		6,67,608	
PNB JALSEVA BHAVAN GANDHINAGAR A/C NO 82		1,49,39,447	
PNB JALSEVA BHAVAN GANDHINAGAR A/C NO 60997		35,42,608	
PNB JALSEVA BHAVAN GANDHINAGAR A/C NO 69890		1,44,94,617	
		7,73,69,368	7,73,69,368
UNION BANK OF INDIA		5,09,581	
		5,09,581	5,09,581
INDIAN BANK		4,28,590	
		4,28,590	4,28,590
IDBI BANK		7,46,98,396	
IDBI BANK		81,14,764	
		8,28,13,160	8,28,13,160
ICICI BANK		62,66,39,693	
ICICI BANK		1,00,66,157	
		63,67,05,850	63,67,05,850
HDFC BANK		1,22,56,329	
HDFC BANK		95,59,099	
HDFC BANK		32,79,966	
		2,50,95,394	2,50,95,394
CANARA BANK		3,55,671	
		3,55,671	3,55,671
BANK OF MAHARASHTRA		4,35,145	
BANK OF MAHARASHTRA		22,08,235	
		26,43,380	26,43,380
BANK OF BARODA		3,00,29,384	
		3,00,29,384	3,00,29,384
TOTAL IN CURRENT ACCOUNT			85,59,50,377
campuse wise bank balance			
BANK BALANCES [SAVINGS AND CURRENT]			
GANDHINAGAR CAMPUS [A]			85,59,50,377
NOTE NO 11.3			AS AT 31/03/2023
DEPOSITES WITH BANK (GANDHINAGAR)			
PUNJAB NATIONAL BANK			55,42,29,492.00
BANK OF BARODA			3,01,42,380.00
CANRA BANK			83,79,59,998.00
UNION BANK OF INDIA			71,36,69,581.00
AUTO SWIFT FD ACCOUNT PNB A/C NO 776			1,02,65,000.00
TOTAL IN FIXED DEPOSIT			2,14,62,66,451.00
DELHI CAMPUS DEPOSIT MARGIN MONEY [D]			4,33,27,632
TOTAL [B]			2,18,95,94,083



BALANCE IN SAVINGS ACCOUNTS [NOTE NO 11.4]		AS AT 31/03/2023
other campus		
BHOPAL CAMPUS		97,38,109
GOA CAMPUS		10,13,88,050
GUWHATO CAMPUS		60,68,935
MANIPUR ACADEMY		14,77,044
PUNE ACADEMY		66,96,286
DELHI CAMPUS		1,53,51,991
TRIPURA CAMPUS		1,77,69,260
TOTAL [C]		15,84,89,676



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 12 - Income from Sales/Services	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
1) Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods	-	-
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2) Income from Services		
a) fees income		-
b) Professional/Consulting Services	3,60,88,674	4,88,08,748
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment/Property)	-	-
e) Others (specify)		
Analysis Income	7,55,85,828	3,66,06,981
Training Income	7,70,49,608	11,28,82,101
Conference Fee Income	1,18,64,887	-
Total	20,05,88,997	19,82,97,830

NOTE NO 12.1 CAMPUS WISE Income from Sales/Services		(Amount - Rs.)	
NAME OF THE CAMPUSE	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22	
GANDHINAGAR	20,00,11,879	19,78,46,516	
BHOPAL	-	-	
GOA	5,77,118	-	
GUWAHATI	-	-	
MANIPUR	-	-	
PUNE	-	-	
NEW DELHI		4,51,314	
TRIPURA	-	-	
Total	20,05,88,997	19,82,97,830	

(Amount - Rs.)

Schedule 13 - Grants/Subsidies	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
(Irrevocable Grants & subsidies Received)		
1) Central Government*	60,00,00,000	5,58,16,508
2) State Government(s)	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions/Welfare Bodies	-	-
5) Institutional Organisations	-	-
6) Others (specify)	-	-
Total	60,00,00,000	5,58,16,508

* Grant for salary Rs. 22.00 cr. and for General Expenditure Rs. 38.00 cr. TOTAL RS. 60.00 CR. IN F.Y.



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

	(Amount - Rs.)	
Schedule 14 - Fees/Subscriptions	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
1) Academic fee income [NOTE NO. 14-1]	53,12,11,219	20,10,98,815
2) Hostel fees	3,01,62,970	79,04,807
3) Seminar/Programm/ Certificate Course/Workshop fees	20,100	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others		
- Mess fee income	1,15,83,091	54,91,770
- Other fees income	26,51,852	12,59,384
Total	57,56,29,232	21,57,54,776

(Amount - Rs.)

NOTE NO 14.1 CAMPUSE WISE ACADAMIC FEE INCOME	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
NAME OF THE CAMPUS		
GANDHINAGAR	51,21,67,227	19,82,43,111
BHOPAL	4,38,050	-
GOA	1,43,93,788	-
GUWAHATI	4,28,001	-
MANIPUR	10,75,650	-
PUNE	3,15,900	-
NEW DELHI	23,92,603	28,55,704
TRIPURA	-	-
Total	53,12,11,219	20,10,98,815

	(Amount - Rs.)	
NOTE NO 14.2 CAMPUSE WISE FEE/ SUBSCRIPTION	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
NAME OF THE CAMPUS		
GANDHINAGAR	55,58,25,290	21,24,09,069
BHOPAL	4,38,050	-
GOA	1,43,93,788	-
GUWAHATI	4,28,001	-
MANIPUR	10,75,650	-
PUNE	3,15,900	-
NEW DELHI	23,92,603	28,55,704
TRIPURA	7,59,950	4,90,003
Total	57,56,29,232	21,57,54,776



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 15 - Income from Investments	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
(Income on investment from earmarked/endowment funds transferred to funds)				
1) Interest				
a) On Govt. Securities	-	-	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-	-	-
2) Dividends				
a) On Shares	-	-	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3) Rents	-	-	-	-
4) Others (specify)	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Transferred to Earmarked/Endowment Funds	-	-	-	-



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY		
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023		
	(Amount - Rs.)	
	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
Schedule 16 - Income from Royalty, Publication etc.		
1) Income from Royalty	-	-
2) Income from Publications	-	-
3) Others (specify)	-	-
Total	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	-	-
		(Amount - Rs.)
Schedule 17 - Interest Earned	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits		
a) With Scheduled Banks	7,08,88,238	8,95,98,691
b) With Non-scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	42,45,371	-
2) On Savings Accounts		
a) With Scheduled Banks	58,66,430	1,01,74,792
b) With Non-scheduled Banks	-	-
c) Post office Savings Accounts	-	-
d) Others	-	-
3) On Loans		
a) Employee/Staff	-	-
b) Others		
- Interest on Income Tax Refund	4,50,440	3,88,248
- Interest on LC	-	8,77,837
4) Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
Total	8,14,50,479	10,10,39,568

NOTE NO 17.1 CAMPUS WISE INTEREST EARNED		
	(Amount - Rs.)	
NAME OF THE CAMPUSE	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
GANDHINAGAR	7,84,98,962	10,02,81,622
BHOPAL	-	-
GOA	-	63,958
GUWAHATI	1,13,116	-
MANIPUR	1,78,901	-
PUNE	1,20,928	-
NEW DELHI	25,38,572	6,93,988
TRIPURA	-	-
Total	8,14,50,479	10,10,39,568



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 18 - Other Income	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
1) Profit on sale/disposal of assets		
a) Owned assets	-	-
b) Assets acquired out of grants , or received free of cost	-	-
2) Export Incentive realized	-	-
3) Fees for Miscellaneous Services	-	-
4) Miscellaneous Income		
Inspection fees	2,75,000	3,50,000
Rent Income	18,17,015	20,50,354
Employee Recovery	7,44,290	1,76,175
Penalty Recovery	3,40,754	21,580
Foreign Exchange Fluctuation Gain	2,856	-
Tender fees	2,32,500	5,56,705
Guest House Income	32,66,014	-
Affiliation fees income	36,60,000	10,000
User charges income	2,91,146	2,84,063
Other Misc. Income	1,38,23,495	20,15,546
Income from Projects	16,24,658	-
Total	2,60,77,728	54,64,423

NOTE NO 18.1 CAMPUS WISE OTHER INCOME	(Amount - Rs.)	
NAME OF THE CAMPUS	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
GANDHINAGAR	2,23,95,895	44,14,422
BHOPAL	-	-
GOA	1,43,907	93
GUWAHATI	-	-
MANIPUR	-	-
PUNE	8	-
NEW DELHI	33,86,615	10,49,908
TRIPURA	1,51,303	-
TOTAL	2,60,77,728	54,64,423

(Amount - Rs.)

Schedule 19 - Increase/(Decrease) in stock of F.G./W.I.P.	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
a) Closing Stock		
Finished goods	-	-
Work-in-progress	-	-
	-	-
b) Less: Opening Stock		
Finished goods	-	-
Work-in-progress	-	-
	-	-
Net increase/(decrease) (a-b)	-	-



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 20 - Establishment Expenses	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
a) Salaries and wages including allowances	37,44,73,387	22,09,18,283
b) Allowances and Bonus	16,81,059	24,63,412
c) Contribution to Provident Fund	-	-
d) Contribution to other fund-NPS	1,79,39,400	1,23,41,105
e) Staff Welfare Expenses	34,646	1,08,300
f) Expenses on Employees - Retirement & Terminal Benefits (*)	5,79,79,660	2,27,530
g) Others (specify)	-	-
- LTC Expenses	13,68,373	1,60,836
- TA/DA	1,29,07,805	5,36,016
- Outsource Employee Salary	3,49,05,350	1,01,69,619
- Medical Expenses Reimbursement	20,35,142	16,03,394
- Uniform Expenses	1,30,000	2,05,000
Total	50,34,54,822	24,87,33,495

(*) Refer Note - 18 of Schedule 25 - Contingent Liabilities and notes to accounts

NOTE NO 20.1 CAMPUS WISE Establishment Expenses	(Amount - Rs.)	
NAME OF THE CAMPUSE	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
GANDHINAGAR	35,05,52,861	18,52,69,583
BHOPAL	32,86,359	-
GOA	2,28,00,917	33,96,469
GUWAHATI	12,79,245	-
MANIPUR	26,20,456	-
PUNE	6,58,268	-
NEW DELHI	10,71,32,804	5,72,61,457
TRIPURA	1,51,23,912	28,05,986
Total	50,34,54,822	24,87,33,495



SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 21 - Other Administrative Expenses	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
Rent, Rates and Taxes	81,60,042	64,59,730
Postage, Telephone and Communication Charges	31,77,309	21,45,076
Electricity Exp	4,29,95,198	2,37,77,536
Security Exp	2,70,20,405	1,24,87,526
Housekeeping Exp	3,04,64,517	93,09,088
Convocation Exp	2,06,76,024	3,360
Professional / Legal Charges	1,63,48,399	3,83,50,985
Hospitality Exp	19,83,908	-
Repairing Exp	11,43,68,756	3,96,46,616
University Exp	2,50,19,684	1,51,67,271
Travelling and Conveyance Expenses	29,42,090	51,65,509
Vehicles Running and Maintenance	92,86,314	50,45,482
Expenses on Seminar/ Workshops	5,64,03,125	49,09,191
Honorarium Exp	71,24,136	34,53,896
Student Welfare Exp	10,08,165	13,43,635
Printing & Stationery	76,74,990	36,10,995
Advertisement and Publicity	1,01,86,239	1,28,09,026
Payment to Visiting Faculty	75,85,021	56,24,597
Subscription Expenses	8,25,208	4,29,185
Library Exp	9,690	17,700
Training Exp	30,56,250	98,30,203
Insurance Exp	10,96,592	42,982
Software & Website Exp	2,45,05,390	51,30,614
Fellowship/ Stipend/ Scholarship Exp	37,68,822	15,16,035
Consumable Exp	1,92,07,598	1,09,60,277
Celebration/ Prize Money Exp	10,22,010	5,39,825
Prior Period Exp	2,17,34,963	-
Bank Charges	33,573	23,260
Sundry Exp	11,49,566	1,81,814
Hostel Exp	73,64,981	6,27,868
Accommodation charges	63,26,238	-
Guest House Exp	26,41,818	1,30,564
Mess Exp	1,02,15,781	60,49,480
Foreign Exchange Rate Fluctuation Gain/loss Total	3,444	2,391
Affiliation Charges	6,18,012	6,63,012
Estate Maintenance Exp	48,60,791	34,17,455
Examination Exp	15,90,887	8,08,103
Inauguration Exp	1,15,47,167	2,32,49,956
Inspection fees Exp	5,00,000	10,50,000
Membership fees	8,962	21,243
Recruitment Exp	6,82,313	-
Testing & Analysis Exp	3,52,460	10,62,259
Water Exp	55,65,669	-
Total	52,11,12,507	25,50,63,745



NOTE NO 21.1 CAMPUS WISE Other Administrative Expenses		(Amount - Rs.)	
NAME OF THE CAMPUSE	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22	
GANDHINAGAR	35,37,55,170	16,05,43,275	
BHOPAL	1,35,78,098	-	
GOA	3,41,71,529	3,19,56,462	
GUWAHATI	8,99,975	-	
MANIPUR	18,13,660	-	
PUNE	6,15,515	-	
NEW DELHI	10,14,71,808	5,56,71,676	
TRIPURA	1,48,06,753	68,92,332	
Total	52,11,12,507	25,50,63,745	



NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2023

(Amount - Rs.)

Schedule 22 - Expenditure on Grants, Subsidies etc	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
a) Grants given to Institutions/Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
Total	-	-

Note - Name of Entities, their activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed.

(Amount - Rs.)

Schedule 23 - Interest	FOR THE YEAR 2022-23	FOR THE YEAR 2021-22
a) On Fixed Loans	-	-
b) On other loans (including bank charges)	-	-
c) Others (Specify)	-	-
Total	-	-



अनुसूची 24-महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

विश्वविद्यालय के बारे में

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय [एनएफएसयू], राष्ट्रीय महत्व कांस्थान, 1 अक्टूबर, 2020 को भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम [राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 32)] द्वारा अस्तित्व में आया है। गुजरात न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात, गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित किया गया है, और लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज, नई दिल्ली को विलय कर दिया गया है और नेशनल फॉरेंसिक न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में होगा।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 08/08/2022 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित करती है कि गोवा और त्रिपुरा में स्थापित परिसरों को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22/08/2023 की अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया है कि भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), और गुवाहाटी (असम) में स्थापित परिसरों को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालयके परिसरों के रूप में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय के परिसरों में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में स्थित परिसर शामिल हैं। एनएफएसयू ने गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, धारवाड़ और गुवाहाटी में परिसर शुरू किए हैं और विश्वविद्यालय द्वारा इन परिसरों में शैक्षणिक गतिविधि पहले ही शुरू कर दी गई है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- व्यावहारिक व्यवहार विज्ञान अध्ययन, कानून, विधिक अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के साथ फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में शैक्षणिक अभिगम और प्रथाओं को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना, जिसमें प्रशिक्षण, कौशल-विकास, अनुसंधान औरदेश में आपराधिक न्याय संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए उक्त क्षेत्रों में से उभरते क्षेत्रों पर फोकस के साथ काम का विस्तार शामिल है :-

- नवाचारों और सर्वोत्तम शैक्षणिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए फॉरेंसिक विज्ञान, व्यावहारिक व्यवहार विज्ञान, अध्ययन, कानून, विधिक अध्ययन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और व्यावहारिक अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना :-
- फॉरेंसिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, अध्ययन, कानून, विधिक अध्ययन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत संस्थागत और अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ावा देना और प्रदान करना :-
- फॉरेंसिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, अध्ययन, कानून, विधिक अध्ययन और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर देश के भीतर और बाहर योग्यता, कौशल और ज्ञान के विकास के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के वैश्विक मानकों से संबद्ध क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की क्षमताएं बढ़ाना:-
- फॉरेंसिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, अध्ययन, कानून, विधिक अध्ययन और अन्य संबद्ध क्षेत्र और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अनुदान द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं और अनुसंधान के माध्यम से जांच, अपराध का पता लगाने और रोकथाम में सुधार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना।
- फॉरेंसिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त व्यवहार विज्ञान, अध्ययन, कानून, विधिक अध्ययन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी समीक्षा सहित प्रासंगिक नीतियों के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को सलाह और सहायता देना:-
- विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अकादमियों और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान, व्यावहारिक व्यवहार विज्ञान, अध्ययन, कानून, विधिक अध्ययन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए विशेषज्ञता रखने वाले संस्थानों के साथ समन्वय और नेटवर्क बनाना:-
- विश्वविद्यालय का प्रशासन, उसका रखरखाव, प्रबंधन और शिक्षा-प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए ऐसे ऑफ-साइट परिसर और अपतटीय (ऑफ-शोर) केंद्र स्थापित करना जो देश के भीतर और बाहर विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हों:-

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को मान्यता देने, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओ पी) प्रदान करने और देश में फॉरेंसिक से जुड़े कार्यों में उपयोग किए जाने वाले फॉरेंसिक उपकरणों और किटों की विशिष्टताओं को निर्धारित करने में सहायता करना;—
- फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक, व्यवहार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में अत्याधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए परिसर, कॉलेज, स्कूल, केंद्र और उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करना;—
- उंगलियों के निशान, आवाज, डी-ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड (डीएनए), आग्रेयास्त, नकली, मुद्रा, मादक दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थ, साइबर सुरक्षा, साइबर रक्षा सहित और आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक जांच के लिए आवश्यक राष्ट्रीय फॉरेंसिक डेटा बेस बनाने और बनाए रखने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहायता करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए विशेष परियोजनाएँ शुरू करना।—

1. लेखांकन विधि

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, लेखांकन की प्रोन्नत (एक्यूयल) विधि पर आधारित होते हैं।

2. इन्वेंटरी मूल्यांकन

2.1 स्टोर और स्पेयर (मशीनरी स्पेयर सहित) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

2.2 कच्चे माल, अर्ध-निर्मित माल और तैयार माल का मूल्यांकन लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत भारित औसत लागत पर आधारित होती है। तैयार माल और अर्ध-निर्मित माल की लागत - सामग्री, श्रम और संबंधित ओवरहेड्स पर विचार करके निर्धारित की जाती है

3 निवेश

3.1 "दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की वहन लागत में अस्थायी लागत के अलावा, गिरावट का प्रावधान किया जाता है।

3.1 "वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान वैश्विक आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से विचारित प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है

3.2 लागत में दलाली (ब्रोकरेज), ट्रांसफर स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल हैं।

4 उत्पाद शुल्क

4 निर्यात के अलावा इकाई (यूनिट) द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संबंध में उत्पाद शुल्क की देनदारी का हिसाब विनिर्माण के पूरा होने पर लगाया जाता है और वर्ष के अंत में उत्पाद शुल्क योग्य निर्मित वस्तुओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

5 अचल संपत्ति

5.1 अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है - जिसमें आंतरिक माल ढुलाई, श्रु, कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं। निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं से संबंधित पूर्व-संचालन व्यय (पूरा होने से पहले विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण पर ब्याज सहित), पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का हिस्सा बनते हैं।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदान (कॉर्पोस फंड के अलावा) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को पूंजी रिजर्व में संबंधित क्रेडिट द्वारा निर्धारित मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

6 मूल्यहास

6.1 आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यहास सीधी-रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा देनदारियों के रूपांतरण के कारण उत्पन्न लागत समायोजन पर मूल्यहास को छोड़कर, शेष बचे हुये जीवन अवशिष्ट पर परिशोधन किया जाता है।

6.2 वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि/कटौती के संबंध में आनुपातिक आधार पर विचार किया मूल्यहास का आकलन किया जाता है।

—6.3 ~~रु. 5,000 या उससे कम प्रत्येक परिसंपत्ति की कीमत को पूरी तरह से प्रदान किया जाता है।~~

7 विविध (मिश्रित) व्यय

आस्थगित (विलंबित) राजस्व व्यय को उसके खर्च किए जाने के वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

8 बिक्री के लिए लेखांकन

बिक्री में उत्पाद शुल्क शामिल है और इसमें बिक्री पर रिटर्न, छूट और व्यापार छूट शामिल है।

9. सरकारी अनुदान/सब्सिडी

9.1 परियोजनाओं की स्थापना की पूंजीगत लागत में सरकारी अनुदान में योगदान की प्रकृति के अनुसार पूंजी आरक्षित माना जाता है।

9.2 अर्जित विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों के संबंध में अनुदान को संबंधित संपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दिखाया गया है।

9.3 सरकारी अनुदान/सब्सिडी का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाता है

10. विदेशी मुद्रा लेनदेन

10.1 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेन-देन का हिसाब-किताब लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

10.2 वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/हानि को अचल संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। यदि विदेशी मुद्रा देनदारी अचल संपत्तियों से संबंधित है तो अन्य मामलों में इसे राजस्व माना जाता है।

11 पट्टा

पट्टा किराये का खर्च पट्टे की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

12 सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी की देनदारियां, बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की जाती हैं।

12.2 कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का प्रावधान, इस धारणा पर अर्जित और गणित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

13 अनुसंधान एवं विकास कोष

13.1 अधिशेष कोष के आधार पर रु. 10,00,00,000/- अनुसंधान एवं विकास निधि में हस्तांतरित किया जाएगा।

अनुसूची 25- आकस्मिक देनदारियां और खातों पर नोट्स (नोट्स ऑन अकाउंट)

1 आकस्मिक देनदारियाँ

ए. इकाई (यूनिट) के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

बी. के संबंध में:

- इकाई (यूनिट) द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- इकाई (यूनिट) की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण पत्र - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- बैंकों से छूट वाले बिल रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

सी. निम्नलिखित के संदर्भ में विवाद ग्रस्त (तकसारी) मांगें:

- आयकर रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- बिक्री कर रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- नगरपालिका कर रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

डी. पार्टियों के दावों पर आदेशों के गैर-निष्पादन के संबंध में, लेकिन व्यावसायिक इकाई (यूनिट) द्वारा विरोध किया गया - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

2 पूंजीगत प्रतिवद्धताएँ

पूंजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य (अग्रिम का शुद्ध) रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

3 पट्टे से संबन्धित बाध्यताएँ

संपन्न और मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत किराये के लिए भविष्य की बाध्यताएं रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य).

4 वर्तमान परिसंपत्ति यां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन के विचारानुसार वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य काम काज के आधार और वसूली पर मूल्यांकित होता है, जो कम से कम बैलेंस शीट में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

5 कराधान

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कोई कर लगाने योग्य आय न होने के कारण आयकर का कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

6 विदेशी मुद्रा लेनदेन

		(राशि-रु.)
6.1 आयात का मूल्य सी.आई.एफ. आधार पर परिगणित :	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
तैयार माल की खरीद	रु. शून्य	रु. शून्य
कच्चा माल एवं घटक (पारगमन सहित)	रु. शून्य	रु. शून्य
पूंजीगत सामान	रु. शून्य	रु. शून्य
स्टोर, पुर्जे और उपभोग्य वस्तुएं	रु. शून्य	रु. शून्य
6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय:		
- यात्रा	रु. शून्य	रु. शून्य
- वित्तीय के लिए प्रेषण और ब्याज भुगतान		
विदेशी मुद्रा में संस्थान/बैंक	रु. शून्य	रु. शून्य
- अन्य व्यय:		
- बिक्री पर कमीशन	रु. शून्य	रु. शून्य
- कानूनी और व्यावसायिक खर्च	रु. शून्य	रु. शून्य
- विविध व्यय	रु. शून्य	रु. शून्य
6.3 उपार्जन (कमाई):		
एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	रु. शून्य	रु. शून्य
6.4 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक:		
लेखा परीक्षकों के रूप में		
- कराधान मामले	रु. शून्य	रु. शून्य
- प्रबंधन सेवाओं के लिए रु. शून्य रु. शून्य		
- प्रमाणन हेतु	रु. शून्य	रु. शून्य
- अन्यान्य	रु. शून्य	रु. शून्य

7. लेखांकन नीति में परिवर्तन: वार्षिक खाते केंद्रीय स्वायत्त संगठनों के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप और लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इन लेखांकन नीतियों में आनुपातिक आधार पर आयकर की दर सीधी रेखा के आधार पर मूल्यहास वसूलने की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय ने पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 से इस वार्षिक लेखा प्रारूप को अपनाया है। हालाँकि पिछले वर्ष के दौरान मूल्यहास नहीं लगाया गया था। ब्यौरे के अभाव में पिछले वर्ष

मूल्यहास का हिसाब न दिये जाने की स्थिति में उसके प्रभाव को न तो मापा जा सका और न ही दर्ज किया जा सका।

8. भूमि और भवन निःशुल्क/पट्टे पर: विश्वविद्यालय के सभी परिसर संबंधित राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को निःशुल्क/पट्टे पर प्रदान की गई भूमि और भवन स्थल से संचालित होते हैं, गोवा में पारगमन परिसर को छोड़कर जहां दीर्घकालिक पट्टे के लिए 60 वर्ष के लिए किराए के परिसर में संचालित है। इसका वार्षिक किराया रु. हर साल 5% वृद्धि के साथ 55,70,220/-।

9. स्टॉक: रसायनों, कांच के बर्तनों, प्रकाशनों और अन्य दुकानों की खरीद पर व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, सिवाय इसके कि 31 मार्च को रखे गए अंतिम स्टॉक के मूल्य को विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित राजस्व व्यय को कम करके आकलित किया जाता है। इनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है

10. निर्धारित/वंदोवस्ती कोष : निम्नलिखित दीर्घकालिक कोष विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई हैं। जिन लोगों के पास बड़ी राशि शेष (बकाया) है, उन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बांड और बैंकों के साथ सावधि जमा में भी निवेश किया है। अर्जित आधार पर निवेश/अग्रिम से आय और बचत बैंक खातों पर ब्याज संबंधित कोष में जमा किया जाता है। व्यय और अग्रिमों को कोष में से डेबिट किया जाता है। निर्धारित कोष से बनाई गई परिसंपत्ति, जहां स्वामित्व संस्थान में निहित है, को पूंजी कोष के बराबर राशि बनाकर संस्थान की संपत्ति के साथ विलय कर दिया जाता है। संबंधित निधियों में शेष राशि को आगे बढ़ाया जाता है और बैंक, निवेश और अर्जित ब्याज पर शेष राशि को परिसंपत्ति वाले कॉलम में दर्शाया जाता है।

- एलएनजेएन एनआईसीएफएस हॉस्टल फंड

- डीजीपी पुलिस प्रशिक्षण अनुदान

- गोल्ड मेडल फंड - त्रिपुरा कैम्पस

- ग्रेच्युटी फंड

- सीएनए अनुदान

- पुरस्कार के लिए अनुदान

- आर एंड डी अनुदान

- एमएचए हैकथॉन अनुदान

- आर एंड डी रिजर्व फंड

- रूसा (RUSA) अनुदान

11. प्रायोजित परियोजनाएं: चल रही प्रायोजित परियोजनाओं में, प्रायोजकों से प्राप्त राशि को " चालू देनदारियां और प्रावधान – चालू देनदारियां - अन्य देनदारियां - चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के खिलाफ प्राप्तियां" हेड के अंतर्गत जमा किया जाता है। जब भी ऐसी परियोजनाओं के लिए व्यय किया जाता है/अग्रिम भुगतान किया जाता है या संबंधित परियोजना खाते से आवंटित ओवरहेड शुल्क डेबिट किया जाता है तो देयता खाता डेबिट कर दिया जाता है।

12. फैलोशिप और छात्रवृत्तियां: संस्थान स्वयं फैलोशिप और छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है, जिन्हें शैक्षणिक व्यय के रूप में शामिल किया जाता है।

13. विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी मुद्रा में अर्जित आय और किए गए व्यय को अलग-अलग नहीं रखा जाता है और इसलिए विवरण प्रदान नहीं किया जाता है।

14. वर्ष के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त/लावारिस बैंक रसीदों की राशि रु. 5,07,528/- को खातों की पुस्तकों में वर्तमान देनदारी के तहत गैर-मान्यता प्राप्त निधि के रूप में दर्ज किया गया है।

15. विश्वविद्यालय के पास 01-04-2022 तक अपनी लेखा पुस्तकों में RUSA नाम से 8.52 करोड़ रुपये की निर्धारित निधि थी। हालाँकि अंतिम उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने पर, विश्वविद्यालय को यह पता चला कि पिछले वर्षों में RUSA फंड से विश्वविद्यालय द्वारा किए गए 7.54 करोड़ रुपये के व्यय को RUSA फंड के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया था। शेष राशि का समाधान करने के लिए अंतर राशि रु. 7.54 करोड़ चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कॉर्पस फंड खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

16. छात्रों से प्राप्त ट्यूशन और अन्य शुल्क, गांधीनगर परिसर में जमा किए गए, अन्य परिसर से संबंधित फीस की परवाह किए बिना, गांधीनगर परिसर की आय के रूप में दर्ज किए जाते हैं। चूंकि वार्षिक खाते समेकित आधार पर तैयार किये जाते हैं। इसका समेकित वार्षिक खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

17. फंड के अलावा अन्य लेनदेन के लिए इंटर कैपस खाता (इंटर कैपस चालू खाता) सुलह-समाधान के अधीन है और सुलह समाधान की प्रक्रिया चल रही है।

18. अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए वर्षांत देयता/प्रावधान एलआईसी मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अवकाश नकदीकरण	(*) रु. 5,62,73,199/-	शून्य
ग्रेच्युटी	रु. 15,39,931/-	रु. 1,24,267/-

(*) पिछले वर्ष तक, खातों की पुस्तकों में अवकाश नकदीकरण दायित्व के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। चालू वर्ष के अवकाश नकदीकरण के खर्च को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31/03/2023 को प्रदान की गई राशि की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार खातों की पुस्तकों में दर्ज की गई। विवरण के अभाव में वर्ष 31/03/2022 तक के अवकाश नकदीकरण के हिस्से को उस अवधि के खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

19. वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय को परिसर विकास के लिए 125.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसे "सीएनए अनुदान" नामक निर्धारित कोष के रूप में बुक किया गया है। 125.00 करोड़ रुपये में से 88.55 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और शेष 36.45 करोड़ रुपये पूंजीगत कार्य के लिए देय होने के कारण पूंजीगतकार्य दायित्व खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

20. अनुसूची 8 - अचल परिसंपत्तियाँ विश्वविद्यालय अनुदान निधि, निर्धारित निधि और विश्वविद्यालय आंतरिक निधि से संचयी रूप में अर्जित परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक स्रोत से अर्जित अचल परिसंपत्तियों का अलग-अलग विभाजन न तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाए रखा जाता है और न ही मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक खाते और लेखा नीतियों के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक/अनिवार्य है।

21. मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चालू वर्ष के दौरान, जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

22. वार्षिक खातों के आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

23. अनुसूची 1 से 25 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते के एक अभिन्न भाग के साथ संलग्न हैं।

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए

कार्यपालक कुलसचिव

स्थान: गांधीनगर

दिनांक: 27/09/2023

वित्त अधिकारी

SCHEDULE 24-SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

ABOUT UNIVERSITY

National Forensic Sciences University [NFSU], an institution of National Importance, has come into existence on 1st October, 2020 by an Act passed by the Parliament of India [NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY ACT,2020(32 OF 2020)]. The Gujarat Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat, established under the Gujarat Forensic Sciences University Act, 2008, and the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Sciences, New Delhi is merged and established as a University by the name of National Forensic Sciences University. The headquarters of the University shall be at Gandhinagar, Gujarat.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA vide notification dated.08/08/2022 notifies that the campuses established at Goa and Tripura shall include as the campuses of National Forensic Sciences University. Further, MINISTRY OF HOME AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA vide notification dated.22/08/2023 notifies that the campuses established at Bhopal (Madhya Pradesh), Dharwad (Karnataka), and Guwahati (Assam) shall include as the campuses of National Forensic Sciences University. At present, the campuses of the University include the campuses situated at National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat and the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Sciences, New Delhi. NFSU has started campuses at Goa, Tripura, Bhopal, Dharwad and Guwahati and the academic activity has already been started in these campuses by the university.

Objectives of the University are as under:

- To facilitate and promote academic learning and practices in the field of forensic science in conjunction with applied behavioural science studies, law, legal studies, criminology and other allied areas and technology, including training, skill-development, research and extension of work with focus on emerging areas in the said fields for strengthening criminal justice institutions in the country;



- To foster research and applied applications in forensic science, applied behavioural science, studies, law, legal studies and other allied areas and technology for training, research and development by promoting innovations and best practices;
- To promote and provide advanced institutional and research facilities in the fields of forensic science, applied behavioural science, studies, law, legal studies and other allied areas and technology;
- To create capacities and capabilities of global standards of education, training and research for development of aptitude, skills and knowledge within and outside the country at various levels in the fields of forensic science, applied behavioural science, studies, law, legal studies and other allied areas and technology;
- To co-ordinate with the Central Government and State Governments to improve investigation, crime detection and prevention through projects and research, funded by grants-in-aid from the Central Government and State Governments, in fields of forensic science, applied behavioural science, studies, law, legal studies and other allied areas and technology;
- To advise and assist the Central Government and State Governments and Union territory Administration in formulation of relevant policies including their review in the fields of forensic science, applied behavioural science, studies, law, legal studies and other allied areas and technology;
- To co-ordinate and network with the institutions having specialization so as to expand the fields of forensic science, applied behavioural science, studies, law, legal studies and other allied areas and technology, for promoting academies and research work through various pursuits;
- To administer, maintain and manage the University and to establish such off-site campus and off-shore centres for education, training and research as are necessary for the furtherance of the objects of the University within and outside the country;
- To assist the Central Government and State Governments to accredit forensic science laboratories, provide standard operating procedures and lay down specifications for forensic equipment and kits to be used for forensic work in the country;



- To set up campus, colleges, schools, centres and institutions of excellence for imparting State of-the-art education, training and research in the fields of forensic science, cyber security and digital forensics, behavioural science, technology and management;
- To assist the Central Government and State Governments to create and maintain national forensic data base required for criminal investigations, including fingerprints, voice, Deoxyribonucleic Acid (DNA), firearms, counterfeit, currency, narcotic drugs and psychotropic substances, cyber security, cyber defence and internal security; and
- To undertake special projects for Central Government and State Governments.

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVENTORY VALUATION

- 2.1 Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.
- 2.2 Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost or net realizable value. The costs are based on weighted average cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads

3. INVESTMENTS

- 3.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 3.1 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis
- 3.2 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4 EXCISE DUTY

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at the year-end.



5 FIXED ASSETS

- 5.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to in completion), form part of the value of the assets capitalized.
- 5.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values sated, by corresponding credit to Capital Reserve.

6 DEPRECIATION

- 6.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustment arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.
- 6.2 In respect of additions/ deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.
- 6.3 Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

7 MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

- 9.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
- 9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.
- 9.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis



10 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases it considered to revenue.

11 LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12 RETIREMENT BENEFITS

- 12.1 Liabilities towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.
- 12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

13 RESEARCH & DEVELOPMENT FUND

13.1 Depending up on surplus funds Rs. 10,00,00,000/- be transfer to research and development fund.



SCHEDULE 25- CONTINGENT LIABILITES AND NOTES ON ACCOUNTS

1 CONTINGENT LIABILITES

- a. Claims against the Entity not acknowledged as debts – Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
- b. In respect of:
 - Bank guarantees given by/on behalf of the Entity –Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity –Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
 - Bills discounted with banks Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
- c. Disputed demands in respects of:
 - Income-tax Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
 - Sales-tax Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
 - Municipal Taxes Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)
- d. In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity – Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)

2 CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital accounts and not provided for (net of advance) Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)

3 LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. Nil (Previous year Rs. Nil).

4 CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5 TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.



6 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

(Amount-Rs.)

6.1	Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis:	Current Year	Previous Year
	Purchase of finished Goods	Rs. Nil	Rs. Nil
	Raw Material & Components (Including in transit)	Rs. Nil	Rs. Nil
	Capital Goods	Rs. Nil	Rs. Nil
	Stores, Spares and Consumables	Rs. Nil	Rs. Nil
6.2	Expenditure in foreign currency:		
	- Travel	Rs. Nil	Rs. Nil
	- Remittances and Interest payment to Financial Institutions/Banks in Foreign Currency	Rs. Nil	Rs. Nil
	- Other expenditure:		
	- Commission on sales	Rs. Nil	Rs. Nil
	- Legal and Professional expenses	Rs. Nil	Rs. Nil
	- Miscellaneous expenses	Rs. Nil	Rs. Nil
6.3	Earnings:		
	Value of Exports on FOB basis	Rs. Nil	Rs. Nil
6.4	Remuneration to auditors:		
	As Auditors		
	- Taxation matters	Rs. Nil	Rs. Nil
	- For Management services	Rs. Nil	Rs. Nil
	- For certification	Rs. Nil	Rs. Nil
	Others	Rs. Nil	Rs. Nil

7. Change in Accounting Policy: Annual Accounts are prepared in the format and accounting policies prescribed by the Ministry of Finance, Government of India for the Central Autonomous organisations. These accounting policies requires to charge depreciation on straight line basis at income tax rate on pro rata basis. University has adopted these annual accounts format from last financial year 2021-22. However, depreciation was not charged during the last year. In absence of details, effect of last year non accounting of depreciation could not be quantified and not recorded.

8. Land & building cost free/ lease: All Campus of the University are operated from the Land & Building site provided by the respective State Government to University at free of cost/lease., except the transits campus at Goa where long term lease for 60 years is operated on rented premises. The yearly rent is Rs. 55,70,220/- with 5% increase every year.



9. Stocks: Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications and other stores is accounted as revenue expenditure, except that the value of closing stocks held on 31st March is set up as inventories by reducing the corresponding Revenue Expenditure on the basis of information obtained from Departments. They are valued at cost

10. Earmarked/Endowment Funds: The following long terms funds are earmarked for specific purpose. Those with large balances also have investment in Government Securities, Debentures and Bonds and Term Deposits with Banks. The income from investments/ advances on accrued basis and interest on savings bank accounts are credited to the respective funds. The expenditure and advances are debited to the fund. The assets created out of Earmarked funds where the ownership vests in the Institution, are merged with the assets of the Institution by creating an equal amount to the Capital fund. The balance in the respective funds is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank, Investments and accrued interest.

- LNJNI NICFS Hostel Fund
- DGP Police Training Grant
- Gold Medal Fund - Tripura Campus
- Gratuity Fund
- CNA Grant
- Grant for Award
- R & D Grant
- MHA Hackathon Grant
- R & D Reserve Fund
- RUSA Grant

11 Sponsored projects: In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions -Current Liabilities -Other Liabilities -Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred /advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited.

12. Fellowships and Scholarships: The Institution itself also awards Fellowships and Scholarships, which are accounted as Academic expenses.



13. Income earned and Expenditures incurred by the University in foreign currency are not separately maintained and hence details not provided.

14. Unrecognised/Unclaimed bank receipts at year end Rs.5,07,528/- has been booked as Unrecognised fund under current liability in books of accounts.

15. University had Earmarked fund named RUSA Rs.8.52 crore in its books of accounts as on 01-04-2022. However, on submission of Final Utilisation Certificate, it's come to knowledge of the University that expenditures incurred by University out of RUSA fund in previous years for Rs.7.54 crore were not adjusted against RUSA fund. In order to reconcile the balance, difference amount Rs.7.54 crore is transferred to Corpus Fund A/c of the University during the Current Year.

16. Tuition and other fees received from students, credited to Gandhinagar Campus are booked as Income of Gandhinagar Campus irrespective of fees pertain to other campus. Since Annual Accounts are prepared on consolidated basis. It does not have any effect on consolidated Annual Accounts.

17. Inter campus account for transactions other than fund (Inter campus current account) is subject to reconciliation and reconciliation is under process.

18. Year End liability/ provision for Leave Encashment and Gratuity is made based on the LIC Valuation Report.

	Current Year	Previous Year
Leave Encashment (*)	Rs. 5,62,73,199/-	Nil
Gratuity	Rs. 15,39,931/-	Rs.1,24,267/-

(*) Up to last year, no such provision for Leave Encashment liability was made in books of accounts. Current Year Leave Encashment Exp. amount recorded in books of accounts as per Valuation Report as on 31/03/2023 provided by Life Insurance Corporation of India. In absence of details, bifurcation for Prior Period Exp. for Leave Encashment portion for the period up to 31/03/2022 is not made in books of accounts.

19. During the year, University has received Rs.125.00 crore for campus development, booked as Earmarked fund named "CNA Grant". Out of Rs.125.00 crores, Rs. 88.55 crores have been utilised and balance Rs.36.45 crores, being the liability towards capital work in progress expenditure payable, transferred to Capital work liability a/c.

20. Schedule 8 – Fixed Assets represents assets acquired out of University Grant Fund, Earmarked Fund and University Internal Fund cumulatively. Separate bifurcation of fixed assets acquired from each sources are neither maintained by University nor required/mandated in the prescribed format of annual account and accounting policies issued by the Ministry.

21. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary, by the University during the current year significantly in order to prepare annual accounts in the format prescribed by Ministry.

22. Figures in the Annual Accounts have been rounded off to the nearest rupee.

23. Schedule 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2023 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.


FOR NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY


EXECUTIVE REGISTRAR


FINANCE OFFICER

PLACE: GANDHINAGAR
DATE: 27/09 /2023




वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/के. ले. प. (व्यय)
Sr. Audit Officer/CA(E)
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), गुजरात
Office of the Director General of Audit (Central), Gujarat
लेखापरीक्षा भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009
Audit Bhavan, Navrangpura, Ahmedabad-380 009

NATIONAL FORENSIC SCIENCES UNIVERSITY - GANDHINAGAR CAMPUS				
RECEIPT AND PAYMENT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2023				
RECEIPTS	2022-23	2021-22	PAYMNETS	
			2022-23	2021-22
I. Openign Balances				
A) Cash in Hand	3,90,000	1,24,393	49,73,94,493	25,57,74,556
B) Bank Balances	40,44,66,635	38,90,59,456	52,04,12,810	20,78,95,111
i. In Current accounts	1,34,71,25,520	1,55,17,16,043	-	-
ii. In Deposit accounts	11,55,43,582	55,33,830	-	-
iii. In Saving accounts				
II. Grants Received			1,15,64,287	17,39,581
a) From Government of India	70,00,00,000	87,00,00,000		
b) From State Government/Union Territory	-	-		
c) Interest earned on Grants	4,27,492	-	6,29,57,245	27,99,91,655
III. Academic & Other Internal Receipts	84,06,17,653	35,39,60,070		
IV. Receipts against Earmarked/Endowment Funds	1,89,58,46,763	97,91,260	16,59,423	1,600
V. Receipts against Sponsored Projects/Schemes	6,56,08,889	5,62,00,656		
VI. Receipts against sponsored Fellowships and Scholarships	17,21,541	1,30,000		
VII. Income on Investments from			84,36,326	88,56,691
a) Earmarked/Endowment funds	-	-	-	-
b) Other investments	-	-	-	-
VIII. Interest received on			1,16,59,97,422	67,44,73,550
 a) Fixed Assets			-	-
 b) Capital Works- in- Progress			-	-
 c) Other Payments including statutory payments			-	-

a) Bank Deposits b) Loans and Advances	11,19,64,120	9,42,52,843	Statutory dues	-	-
IX. Investments encashed	-	-	IX. Refunds of Grants	-	-
X. Term Deposits with Scheduled Banks encashed	-	-	X. Deposits and Advances		
			Employee Advances	1,55,52,679	41,37,771
			Students Deposits	1,48,81,892	39,10,127
XI. Other income (including Prior Period Income)	2,60,77,727	37,46,996	EMD and Security Deposit	97,95,963	13,26,243
			Advance / Deposit	76,51,319	4,01,49,604
XII. Deposits and Advances			XI Other payments	1,83,57,684	59,94,410
Employee Advance	1,47,49,325	35,86,596			
Other Advance/Deposits	1,03,87,446	11,82,084			
Deposits from students	1,31,95,574	1,24,92,409			
Security Deposit	2,45,390	-			
XIII. Miscellaneous Receipts including Statutory Receipts	-	-	X. Closing balances		
			A) Cash in Hand	80,958	3,90,000
XIV. Any Other Receipts			B) Bank Balances		
NSS Grant	-	-	i. In Current accounts	85,59,50,377	40,44,66,635
Unrecognised Funds	4,08,978	-	ii. In Deposit accounts	2,18,95,94,083	1,34,71,25,520
			iii. In Saving accounts (incl. MOD A/c)	15,84,89,675	11,55,43,582
TOTAL	5,53,87,76,636	3,35,17,76,636	TOTAL	5,53,87,76,636	3,35,17,76,636

Shreenkaf
 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/के. तं. प. (व्यय)
 Sr. Audit Officer/CA(E)
 सर्वोच्च महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), गुजरात
 Office of the Director General of Audit (Central), Gujarat
 लेखापरीक्षा भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009
 Audit Bhavan, Navrangpura, Ahmedabad-380 009

For National Forensic Sciences University

July
 Executive Registrar

Shank
 Finance Officer



Place : Gandhinagar

Date : 20/09/2023



National Forensic Sciences University

Knowledge | Wisdom | Fulfilment

An Institution of National Importance
(Ministry of Home Affairs, Government of India)

National Forensic Sciences University

Knowledge | Wisdom | Fulfilment

An Institution of National Importance
(Ministry of Home Affairs, Government of India)

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय

Knowledge | Wisdom | Fulfilment

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्वका संस्थान)

Sector - 9, Gandhinagar-382007, Gujarat, India.